

## उपसर्ग किसे कहते हैं?

वह अव्यय या शब्दांश, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग = उप (समीप) + सर्ग (सृष्टि करना) का अर्थ है- किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे।

## प्रत्यय किसे कहते हैं?

सामान्य भाषा में प्रत्यय वे शब्द हैं जो अव्यय के बाद में लग कर उसे नया रूप और नया अर्थ प्रदान करते हैं। प्रत्यय = प्रति (साथ में पर बाद में)+ अय (चलनेवाला)। यानी की प्रत्यय शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे- दयालू= दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। अतः यहाँ 'आलू' शब्दांश प्रत्यय है।

## उपसर्ग और प्रत्यय (Upsarg Pratyay) में अंतर

उपसर्ग	प्रत्यय
उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है।	प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है।
उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है।	प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द-गिर्द ही रहता है।
उदाहरण- प्र+चार= प्रचार इसमें प्र उपसर्ग है, जो चार शब्द के पहले जुड़ा है।	उदाहरण- इतिहास+इक= ऐतिहासिक इसमें 'इक' प्रत्यय है, जो शब्द के अंत में जुड़ा है।

**उदाहरण:** प्र+हार = प्रहार                      उप+कार = उपकार                      आ+हार = आहार

हिंदी में मुख्यतः चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं:

- संस्कृत के उपसर्ग (तत्सम)
- हिंदी के उपसर्ग (तद्भव)
- उर्दू के उपसर्ग
- अंग्रेजी के उपसर्ग (विदेशी)।

## संस्कृत के उपसर्ग (तत्सम)

संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग इस प्रकार हैं:

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से बने शब्द
अति	अधिक	अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यन्त, अत्याचार
अधि	प्रधान/श्रेष्ठ	अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्ययन
अनु	पीछे	अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद, अनुभव
अप	बुरा	अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन
अभि	पास	अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग
अव	हीनता	अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण
आ	तक/से	आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म
उत्	श्रेष्ठ	उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख
उप	सहायक	उपभोग, उपवन, उपमन्त्री, उपयोग, उपनाम, उपहार
दुर्	कठिन/गलत	दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग
दुस्	बुरा/कठिन	दुश्चिन्त, दुश्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य
नि	बिना	निडर, निगम, निवास, निषेध, निबन्ध, निषिद्ध
निस्	बिना/बाहर	निश्चय, निश्छल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल
निर्	बिना	निराकार, निरादर, नीरोग, नीरस, निरीह, निरक्षर
प्र	आगे	प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न
परा	विपरीत	पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या
परि	चारों ओर	परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त
प्रति	प्रत्येक	प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि
वि	विशेष	विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन, व्यवहार
सु	अच्छा	सुगन्ध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील
सम्	अच्छी तरह	सन्तोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा
अन्	नहीं/बुरा	अनन्त, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम।
अव	हीनता	अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण

## हिन्दी के उपसर्ग (तद्भव)

हिंदी के उपसर्ग ज्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश (aberration) हैं, ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पहले आते हैं:

अन	नहीं	अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा
अध	आधा	अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधगला
उन	एक कम	उनचालीस, उन्नीस, उनतीस, उनसठ, उन्नासी
औ	अब	औगुन, औगढ़, औसर, औघट, औतार
कु	बुरा	कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति
चौ	चार	चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा
पच	पाँच	पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी
पर	दूसरा	परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार
बिन	बिना	बिन खाया, बिनब्याहा बिनबोया, बिनमाँगा, बिनबुलाया
भर	पूरा	भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई
स	सहित	सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक
चिर	सदैव	चिरयौवन, चिरपरिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी
न	नहीं	नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति
बहु	ज्यादा	बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक
आप	स्वयं	आपकाज, आपबीती, आपकही, आपसुनी
सम	समान	समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र
दु	बुरा/हीन	दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल

## उर्दू के उपसर्ग

उर्दू भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है:

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से बने शब्द
ला	बिना	लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता
बद	बुरा	बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदबू, बदकिस्मत
बे	बिना	बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम
कम	थोड़ा	कमबख्त, कमज़ोर, कमदिमाग, कमअक्ल, कमउम्र
गैर	के बिना	गैरकानूनी, गैरजरूरी, गैरहाज़िर, गैरसरकारी,
ना	अभाव	नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसन्द
खुश	श्रेष्ठता	खुशनुमा, खुशगवार, खुशमिज़ाज, खुशबू, खुशदिल
हम	बराबर	हमउम्र, हमदर्दी, हमराज, हमपेशा

ऐन	ठीक	ऐनवक्त, ऐनजगह, ऐनमौके
सर	मुख्य	सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार
बेश	अत्यधिक	बेशकीमती, बेशुमार, बेशकल, बेशऊर
बा	सहित	बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका
अल	निश्चित	अलबत्ता, अलविदा, अलसुबह, अलगरज

### अंग्रेजी के उपसर्ग

अंग्रेजी भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है-

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से बने शब्द
सब	अधीन	सब-रजिस्ट्रार, सब-जज, सब-कमेटी, सब-इंस्पेक्टर
हाफ	आधा	हाफकमीज, हाफटिकट, हाफपेन्ट, हाफशर्ट
को	सहित	को-आपरेटिव, को-आपरेशन, को-एजुकेशन
हैड	मुख्य	हैडमास्टर, हैडऑफिस, हैडक्लर्क, हैडबाँय
वाइस	सहायक	वाइसराय, वाइस-चांसलर, वाइस-प्रेसीडेंट

उपसर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. अति + क्रमण = अतिक्रमण  | 16.अन् + आचार = अनाचार     |
| 2. अति + उक्ति = अत्युक्ति | 17.अन् + उदार = अनुदार     |
| 3. अति + आचार = अत्याचार   | 18.अन् + एक = अनेक         |
| 4. अति + उत्तम = अत्युत्तम | 19.अन् + आदर = अनादर       |
| 5. अति + शय = अतिशय        | 20.अप + शब्द = अपशब्द      |
| 6. अधि + कृत = अधिकृत      | 21.अति + पावन = अतिपावन    |
| 7. अधि + करण = अधिकरण      | 22.अति + अधिक = अत्यधिक    |
| 8. अधि + वक्ता = अधिवक्ता  | 23.अति + रिक्त = अतिरिक्त  |
| 9. अधि + कार = अधिकार      | 24.अति + क्रमण = अतिक्रमण  |
| 10.अधि + आदेश = अध्यादेश   | 25.अति + उक्ति = अत्युक्ति |
| 11.अधि + अयन = अध्ययन      | 26.अति + आचार = अत्याचार   |
| 12.अधि + पति = अधिपति      | 27.अति + उत्तम = अत्युत्तम |
| 13.अधि + अक्ष = अध्यक्ष    | 28.अति + शय = अतिशय        |
| 14.अन् + अंत = अनंत        | 29.अधि + कृत = अधिकृत      |
| 15.अन् + इच्छा = अनिच्छा   | 30.अधि + करण = अधिकरण      |

- 31.अधि + वक्ता = अधिवक्ता  
32.अधि + कार = अधिकार  
33.अधि + आदेश = अध्यादेश  
34.अधि + अयन = अध्ययन  
35.अधि + पति = अधिपति  
36.अधि + अक्ष = अध्यक्ष  
37.अन् + अंत = अनंत  
38.अन् + इच्छा = अनिच्छा  
39.अन् + आचार = अनाचार  
40.अन् + उदार = अनुदार  
41.अन् + एक = अनेक  
42.अन् + आदर = अनादर  
43.अनु + करण = अनुकरण  
44.अनु + दान = अनुदान  
45.अनु + गमन = अनुगमन  
46.अनु + भव = अनुभव  
47.अनु + भूति = अनुभूति  
48.अनु + रूप = अनुरूप  
49.अनु + सरण = अनुसरण  
50.अनु + कंपा = अनुकंपा  
51.अनु + शासन = अनुशासन  
52.अनु + वाद = अनुवाद  
53.अप + यश = अपयश  
54.अप + मान = अपमान  
55.अप + कर्ता = अपकर्ता  
56.अप + शब्द = अपशब्द  
57.अप + कार = अपकार  
58.अप + हरण = अपहरण  
59.अप + वाद = अपवाद  
60.अप + शकुन = अपशकुन  
61.अभि + कथन = अभिकथन  
62.अभि + आस = अभ्यास  
63.अभी + रक्षा = अभिरक्षा  
64.अभी + नेता = अभिनेता  
65.अभी + शाप = अभिशाप  
66.अभी + योग = अभियोग  
67.अभी + मुख = अभिमुख  
68.अभी + नव = अभिनव  
69.अव + तार = अवतार  
70.अव + चेतन = अवचेतन।

## प्रत्यय की परिभाषा क्या है?

प्रत्यय = प्रति (साथ में पर बाद में)+ अय (चलनेवाला) शब्द का अर्थ है- पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे- दयालु= दया शब्द के अंत में आलु जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। अतः यहां 'आलू' शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं-

### कृत् प्रत्यय

वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, कृत् प्रत्यय कहलाते हैं। कृत् प्रत्यय से बने शब्द कृदंत (कृत्+अंत) शब्द कहलाते हैं। जैसे- लेख् + अक = लेखक। यहां अक कृत् प्रत्यय है, तथा लेखक कृदंत शब्द है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

क्रम	प्रत्यय	मूलशब्द/धातु	उदाहरण
1	अक	लेख्, पाठ्, कृ, गै	लेखक, पाठक, कारक, गायक
2	अन	पाल्, सह्, ने, चर्	पालन, सहन, नयन, चरण
3	अना	घट्, तुल्, वंद्, विद्	घटना, तुलना, वन्दना, वेदना
4	अनीय	मान्, रम्, दृश्, पूज्, श्रु	माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय
5	आ	सूख्, भूल्, जाग, पूज्, इष्, भिक्ष्	खा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा
6	आई	लड़, सिल, पढ़, चढ़	लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई
7	आन	उड़, मिल, दौड़	उड़ान, मिलान, दौड़ान
8	इ	हर, गिर, दशरथ, माला	हरि, गिरि, दाशरथि, माली
9	इया	छल, जड़, बढ़, घट	छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया
10	इत	पठ, व्यथा, फल, पुष्प	पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित

### तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों- संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के इस ब्लॉग में जैसे- सेठ + आनी = सेठानी। यहां आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

क्रम	प्रत्यय	शब्द	उदाहरण
1	आइन	पण्डित, ठाकुर	पण्डिताइन, ठाकुराइन
2	आनी	सेठ, नौकर, मथ	सेठानी, नौकरानी, मथानी
3	आयत	बहुत, पंच, अपना	बहुतायत, पंचायत, अपनायत
4	आर/आरा	लोहा, सोना, दूध	लोहार, सुनार, दूधार
5	आहट	चिकना, घबरा, चिल्ल, कड़वा	चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट
6	ई	सुन्दर, बोल, पक्ष, खेत, ढोलक, तेल, देहात	सुन्दरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तेली, देहाती

प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. ई = बोली, हंसी
2. ना = चलना, लिखना पढ़ना
3. अन = चिंतन, मनन, भवन, मरण, करण
4. नी = चलनी, फूंकनी
5. ई = फाँसी, धुलाई, सफाई
6. ना = बेलना, ढँकना, पिटना (सभी वस्तुएँ)
7. अनीय = कथनीय, करणीय, पठनीय
8. य = गेय, प्रेय, देर
9. व्य = गंतव्य, कर्तव्य, श्रव्य
10. इया = डिबिया, खटिया, बिटिया
11. आर = लुहार, सुनार
12. पन = बचपन, लड़कपन
13. डा = मुखड़ा, दुखड़ा
14. गर = जादूगर, बाज़ीगर
15. दार = दुकानदार, जमींदार, किरायेदार
16. ई = चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी
17. पा = बुढ़ापा, मोटापा
18. ता/ त्व = मानवता, मनुष्यत्व
19. वान = धनवान, गाड़ीवान
20. कार = कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार अक  
= पाठक, गायक, लेखक, नायक, धावक
21. उक = भिक्षुक, भावुक
22. एता = नेता, अभिनेता, विक्रेता
23. अक्कड़ = पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़
24. ऊ = कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ
25. हार = होनहार, खेवनहार, सेवनहार
26. ऐया वैया = गवैया, खिवैया
27. ना = खाना, गाना
28. नी = चटनी, बेलनी, सूँघनी, फूंकनी (सभी वस्तुएँ)
29. वनी = उठावनी, पैरावनी, दिखावनी
30. आई = पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई
31. आन = पहचान, मिलान, उठान
32. आवट = मिलावट, सजावट
33. ई = बोली, हँसी
34. ना = चलना, लिखना पढ़ना
35. अन = चिंतन, मनन, भवन, मरण, करण
36. नी = चलनी, फूंकनी
37. ई = फाँसी, धुलाई, सफाई
38. ना = बेलना, ढँकना, पिटना (सभी वस्तुएँ)
39. अनीय = कथनीय, करणीय, पठनीय
40. य = गेय, प्रेय, देर

- 41.व्य = गंतव्य, कर्तव्य, श्रव्य
- 42.इया = डिबिया, खटिया, बिटिया
- 43.आर = लुहार, सुनार
- 44.पन = बचपन, लड़कपन
- 45.झा = मुखड़ा, दुखड़ा
- 46.गर = जादूगर, बाज़ीगर
- 47.दार = दुकानदार, जमींदार, किरायेदार
- 48.ई = चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी
- 49.पा = बुढ़ापा, मोटापा
- 50.ता/ त्व = मानवता, मनुष्यत्व
- 51.वान = धनवान, गाड़ीवान
- 52.कार = कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार
- 53.हारा = लकड़हारा, पालनहारा
- 54.ई = गरीबी, रईसी, अमीरी, बीमारी
- 55.आई = अच्छाई, भुराई, मिठाई
- 56.ता = सुंदरता, योग्यता, महता, लघुता

- 57.आस = मिठास, खटास
- 58.आहट = कड़वाहट, चिकनाहट
- 59.आ = भूखा, प्यासा, ठंडा
- 60.ईला = जहरीला, शर्मीला, बर्फीला
- 61.आना = सालाना, रोज़ाना, मर्दाना
- 62.इक = धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक
- 63.ई = बंगाली, जापानी, गुलाबी, ऊनी
- 64.इन = रंगीन, नमकीन, शौकीन
- 65.एरा = चचेरा, ममेरा, फुफेरा
- 66.एलू = घरेलू
- 67.इक = धार्मिक, ऐतिहासिक
- 68.आना = सालाना, रोजाना, मर्दाना
- 69.ला = अगला, पिछला, मंझला, निचला।
- 70.जा = नीरजा, ऊर्जा।
- 71.अन = चलन, जीवन, मरण।
- 72.ईय = नाटकीय, राष्ट्रीय, केंद्रीय

### उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं?

शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग = उप (समीप) + सर्ग (सृष्टि करना) का अर्थ है- किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ मतलब लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं।

### उपसर्ग प्रत्यय को कैसे पहचानें?

उपसर्ग के सामान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द

1. का उपसर्ग : एकस का अर्थ होता है निषेध
2. कु उपसर्ग : कु का अर्थ होता है हीन - कुपुत्र आदि।
3. चिर उपसर्ग : चिर का अर्थ होता है बहुत देर
4. अ उपसर्ग : अ का अर्थ होता है निषेध , अभाव
5. अन उपसर्ग : अन का अर्थ होता है निषेध
6. अंतर उपसर्ग : अंतर का अर्थ होता है भीतर।

### उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं?

संस्कृत के उपसर्ग -तत्सम शब्दों में प्रयोग किये जाने वाले उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग - तद्भव शब्दों में प्रयोग किये जाने वाले उपसर्ग को हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। आगत उपसर्ग- हिंदी में प्रयोग किये जाने वाले विदेशी भाषाओं (अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी) के उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं।

### प्रत्यय कैसे लगाते हैं?

अक = लेखक , नायक , गायक , पाठक अक्कड = भुलक्कड , घुमक्कड़ , पियक्कड़ आक = तैराक , लडाक  
आलू = झगड़ालू आकू = लड़ाकू , कृपालु , दयालु आड़ी = खिलाड़ी , अगाड़ी , अनाड़ी इअल = अडियल ,  
मरियल , सडियल एरा = लुटेरा , बसेरा ऐया = गवैया आदि।

### उपसर्ग कैसे लिखते हैं?

संस्कृत के उपसर्ग तथा उनसे बने शब्द

1. अति और इसमें हम शय जोड़ देते हैं तो शय पहले से ही एक मूल शब्द है. और इसमें अति जोड़ने से एक नया 2. शब्द या नया अर्थ उत्पन्न होता है
3. अधि + कार = अधिकार
4. अनु + शासन = अनुशासन
5. अप + कार = अपकार
6. संस्कृत उपसर्ग का छटा उपसर्ग अव होता है
7. आ + जीवन = आजीवन
8. उत + कर्ष = उत्कर्ष
9. उप + कार = उपका।